



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 माघ 1944 (श०)  
(सं० पटना 100) पटना, बुधवार, 1 फरवरी 2023

---

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना  
28 जनवरी 2023

सं० 2/स्था०-01-24/2008/417/आ०प्र०—बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 326/आ०प्र० दिनांक 05.02.2018 द्वारा श्री पारस नाथ राय, भा०पु०से० (सेवानिवृत्त) को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 की उपधारा 2(b) के अन्तर्गत उनके पदभार ग्रहण की तिथि 05.02.2018 से 5 वर्ष अथवा अगले आदेश तक मनोनित किया गया था। इनका कार्यकाल दिनांक 04.02.2023 को समाप्त हो रहा है।

पुनः सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के आलोक में श्री पारस नाथ राय, पिता—स्व० शिव शंकर राय, स्थायी पता—उपासना, रोड नं०-2, रामाकृष्णापुरम्, दानापुर, पोस्ट—दानापुर, पटना वर्तमान पता—एम०-18 स्टैंड रोड, पटना-800001 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 की उपधारा 2(b) के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2023 से 2 वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पूर्व घटित हो (आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या-1360/आ०प्र० दिनांक-07.06.2008 द्वारा अधिसूचित), को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पुनर्मनोनित किया जाता है।

2. श्री राय को सेवा शर्तें एवं देय वेतन आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें एवं भत्तों का संदाय) नियमावली, 2008, समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन शासित होंगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राजेश चौधरी,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 100-571+100-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>